

सीएसआईआर-केंद्रीयइलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
पिलानी(राजस्थान) - 333031

संख्या 2/3/Comm./स्था.III/2016

दिनांक 25/10/17

रुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

सीएसआईआर-सीरी परिसर, पिलानी में लाइसेंस शुल्क के आधार पर दुकानों के लिए स्थान प्राप्त करने की इच्छुक फर्मों/दुकानदारों/विक्रेताओं से दोहरी बोली प्रणाली (भाग-I : तकनीकी बोली और भाग-II : मूल्य बोली) के अंतर्गत मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। उपलब्ध स्थान भट्ट शॉपिंग सेंटर में स्थित है। यह परिसर कॉलोनीवासियों के लिए आवश्यक सेवाओं हेतु उपयोग किया जाना है। इन दुकानों का विवरण (जिसे दुकान सं. से इंगित किया गया है), क्षेत्रफल तथा वे उद्देश्य जिसके लिए उनका उपयोग किया जाना चाहिए अनुलग्नक - I में दिए गए हैं।

प्रत्येक दुकान के लिए बोली (Bid) अलग से प्रस्तुत की जानी चाहिए और बोली **अनुलग्नक-I** में दिए गए उद्देश्य से ही संबंधित होनी चाहिए।

R15,000/- (रुपये पंद्रह हजार मात्र) की बयाना धनराशि जमा (ईएमडी) बोलियों के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। कृपया ध्यान दें कि बोली लगाने वाले अपनी बोली को निम्नानुसार प्रस्तुत करें -

1. **लिफाफा 1** - R15,000/- रुपये की बयाना जमा राशि (ईएमडी) सहित
2. **मुहरबंद लिफाफा-2** - तकनीकी बोली सहित
3. **मुहरबंद लिफाफा-3** - मूल्य बोली सहित

ये तीनों(03) लिफाफे एक बड़े लिफाफे में डाले जाने चाहिए जिस पर बड़े व स्पष्ट अक्षरों में **सीएसआईआर-सीरी परिसर में दुकानों के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)"** लिखा हो।

ईओआई के अनुलग्नक-II के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे :

(लिफाफा -1) तकनीकी बोली

1. मालिक / विक्रेता का नाम, पता और संपर्क विवरण
2. फर्म / एजेंसी का नाम
3. पैन कार्ड नंबर (प्रतिलिपि संलग्न करें)
4. आधार कार्ड संख्या (प्रति संलग्न करें)
5. माल और सेवा कर (जीएसटी) कोड संख्या (प्रमाण पत्र/आवेदन का सुबूत (यदि आवेदन किया हो), संलग्न किया जाए)
6. क्या किसी संस्थान/संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है (स्व-वचनपत्र संलग्न करें)
7. कोई संबंध नहीं प्रमाण पत्र (स्व-वचनपत्र संलग्न करें)
8. क्या मालिक को कभी किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है (स्व-वचनपत्र संलग्न करें)

अनुलग्नक-III के अनुसार सभी इच्छुक पार्टियों को श्रेणीवार अंक दिए जाएँगे। फर्मों/दुकानदारों/विक्रेताओं का लघूसूचीयन(short listing) उनके द्वारा योग्यता के पूर्व मानदंडों को पूरा करने और प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

(लिफाफा - 2) मूल्य बोली

फर्मों/दुकानदारों/विक्रेताओं को दुकान के आबंटन के संबंध में अंतिम निर्णय केवल संलग्न मूल्य-बोली(price bid) (**अनुलग्नक-IV**) में उद्धृत उच्चतम दर के आधार पर लिया जाएगा। कार्य का नाम, बयाना जमा धनराशि (ईएमडी), न्यूनतम लाइसेंस शुल्क और कार्य की अवधि इस प्रकार है :

कार्य का नाम	न्यूनतम लाइसेंस शुल्क	बयाना जमा (रुपये में)	लाइसेंस की अवधि
सीरी कैम्पस, पिलानी में स्थित सीएसआईआर-सीरी परिसर में दुकानों के लिए लाइसेंस शुल्क के आधार पर स्थान लेने के लिए ईओआई (EOI)	कृपया अनुलग्नक -1 का संदर्भ लें	R15,000 / - (सभी दुकानों के लिए लागू)	पाँच वर्ष

ईओआई की महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नानुसार हैं:

- | | | | | |
|------|-----------------------------|---|----------|------------------|
| i) | ईओआई के प्रकाशन की तारीख | : | 01.11.17 | |
| ii) | बोली प्रस्तुत की अंतिम तिथि | : | 21.11.17 | (3:00 बजे दोपहर) |
| iii) | तकनीकी बोली खोलना | : | 21.11.17 | (3:30 बजे दोपहर) |
| iv) | मूल्य बोली खोलना | : | 05.12.17 | (3:30 बजे दोपहर) |

अहस्ताक्षरित/अधूरी और मुहरबंद न की गई निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निदेशक, सीएसआईआर-सीरी, द्वारा किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार या उन्हें आंशिक रूप में स्वीकार किया जा सकता है या बोली(bid) को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार किया जा सकता है। विस्तृत ईओआई (EOI) सीएसआईआर-सीरी के वेब पेज (www.ceeri.res.in) देखी जा सकती है।

प्रशासन नियंत्रक